

India Radio Stations broadcast mainly in the regional languages and dialects are used only in programmes of a cultural type based on folk music and literature and in cases where the requirements of dramatic or featured presentation necessitate the use of dialects. Facilities for the broadcast of features in the Hindi dialects are therefore given in AIR's rural programmes on this basis, depending on exigencies of programmes planning and the availability of scripts of the requisite standard. The areas where Rajasthani and Garhwali are spoken have not yet come under the coverage of AIR's existing transmitters.

श्री भक्त वरुण : क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि अभी तक इन जनपदीय भाषाओं का जो कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है वह बहुत कम है और उसे और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है ?

डा० केशकर : जी हां, आल इंडिया रीडियो इस बात को महसूस करता है कि जो भिन्न भिन्न बोलियाँ हैं उनके अन्दर सांस्कृतिक कार्यक्रम जहाँ तक हो हम बढ़ावें लेकिन जैसा मैंने आपको इस जवाब में कहा है ऐसे बहुत से प्रदर्श हैं जहाँ हमारे आजकल जो ट्रान्समीटर हैं उनकी वहाँ तक पहुँच नहीं है और जब तक ट्रान्समीटर्स की आवाज वहाँ तक नहीं पहुँचती उस समय तक कितने भी प्रकार के कार्यक्रम करने से कोई विशेष फायदा नहीं होगा ।

श्री भक्त वरुण : क्या कभी इस सङ्ग्राह पर भी विचार किया गया है कि इस कार्यक्रम को और अधिक सफल और आकर्षक बनाने के लिये परामर्शदात्री समितियों की स्थापना की जाय ?

Mr. Speaker: Have they considered the question of the establishment of advisory committees for the purpose of more effective implementation?

डा० केशकर : हर एक स्टेशन के पास एक जनरल प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी होती है और रूरल प्रोग्राम्स के लिये हर एक जगह

विशेषज्ञों की एक छोटी कमेटी होती है, मैं नहीं समझता और किस प्रकार की कमेटी माननीय मंत्री सजैस्ट कर रहे हैं ।

श्री हेम राज : मैं जानना चाहता हूँ कि आकाशवाणी से पहले जो डोगरी भाषा में प्रोग्राम चलता था वह बन्द कर दिया गया है और अगर बन्द कर दिया गया है तो वह किस वजह से बन्द कर दिया गया है ?

डा० केशकर : मुझे पता नहीं है । डोगरी भाषा का प्रोग्राम जम्मू स्टेशन से चलता है, यहाँ से कुछ डोगरी का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था, अब मुझे पता नहीं है कि वह पूरा प्रोग्राम बन्द कर दिया गया है या अंशतः बन्द किया गया है, यह मुझे दखना पड़ेगा ।

DEVELOPMENT COUNCIL FOR BICYCLE INDUSTRY

*858. **Shri D. C. Sharma:** Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to refer to the reply to starred question No. 1632 asked on the 7th April, 1954 and state:

(a) whether the sub-committees appointed by the Development Council for bicycle industry have submitted their report; and

(b) if, so, what action has been taken on it?

The Minister of Commerce and Industry (Shri T. T. Krishnamachari):

(a) Yes, Sir.

(b) Government's reactions on the reports submitted to them have been communicated to the Chairman of the Development Council concerned. The reply of the Council is awaited.

Shri D. C. Sharma: The hon. Minister said that the reply of the Council is awaited; may I know what the main recommendations are?

Shri T. T. Krishnamachari: It is a very long list. I have got about eight of them. I would certainly promise to let the House know when finally we decide on accepting or rejecting the recommendations, after we hear from the Development Council.

Shri D. C. Sharma: What has been decided so far as the welfare of workers is concerned?

Shri T. T. Krishnamachari: All the recommendations made by those three sub-committees have been considered by Government and our reactions have been sent to the Development Council. We have communicated them to the Chairman, and it is up to the Chairman to tell us what the Council thinks about it. It is only after that, I will be in a position to divulge Government's reactions on these matters, and what decision the Government will take on it.

Shri D. C. Sharma: Would the hon. Minister kindly lay a statement to that effect on the Table of the House in the next session?

Shri T. T. Krishnamachari: As soon as we finalise our arrangements in this matter, I promise to take the House into confidence, but not before that.

LADAKH

*860. **Shri K. P. Sinha:** Will the Prime Minister be pleased to state:

(a) whether Government have received any request on behalf of the people of Ladakh for a clear mention of the Ladakh-Western Tibet trade route in the Sino-Indian Agreement on Tibet; and

(b) whether it is a fact that Ladakh has lost its trade with Central Asia on account of Sinkiang having been declared as closed territory?

The Deputy Minister of External Affairs (Shri Anil K. Chanda): (a) Yes, the route leading to Tashigong along the valley of Shangatsangu (Indus) river, mentioned in Article IV of the Agreement, provides mainly for such trade.

(b) Yes. The loss, however, is being made up by increasing Ladakh's trade with the rest of Kashmir and Tibet and developing its internal resources.

366 LSD.

Shri K. P. Sinha: May I know whether the advantages accruing to the traders under the treaty of 1842 are available now and whether that treaty is still subsisting?

Shri Anil K. Chanda: He is referring to the 1842 treaty. This is a new treaty between India and China.

Mr. Speaker: He may table a question if he likes.

Shri K. P. Sinha: I understand that there were more advantages for the traders who went to Lhasa from Ladakh, under the treaty of 1842. May I know whether they are still subsisting?

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Defence (Shri Jawaharlal Nehru): They have all lapsed.

श्री भक्त वरान : जिस तरह से टंहेरी गढ़वाल का नीलंग दर्रा है जिस से हो कर तिब्बत को मार्ग जाता है उसी तरह से कांगड़ा के स्थिती दर्रे से भी तिब्बत को मार्ग जाता है, लेकिन तिब्बत से जो समझौता हुआ है उस में इन दोनों का कोई उल्लेख नहीं है, जिस के कारण से वहाँ के व्यापारियों को बड़ी कठिनाई होती है। क्या गवर्नमेंट के नोटिस में यह बात आई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : आपका मतलब यह है कि चीक इस की चर्चा समझौते में नहीं हुई है इस लिये कठिनाई हो रही है ?

श्री भक्त वरान : जी, हां।

श्री जवाहरलाल नेहरू : कठिनाई तो कुछ जरूर है, लेकिन उस का सम्बन्ध इस चर्चा के न होने से नहीं है। यह जाहिर है कुछ दिक्कतें हैं और हम चाहते हैं कि दिक्कतें हटाई जायें और इसकी कोशिशें की जाती हैं।

NEHRU-LIAQUAT PACT

*861. **Shri Krishnacharya Joshi:** Will the Prime Minister be pleased to state:

(a) whether the Government of Pakistan has implemented all the